



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 2898]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3686(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उक्त अनुसूची के स्तंभ (3), यथा विनिर्दिष्ट ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स संख्या 34, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा की अधिकारिता के भीतर आने वाले स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में उक्त सक्षम प्राधिकारियों के सामने, उसके स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी धाराओं के उपबंधों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है:-

अनुसूची

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति का पदनाम	शासकीय पता	अधिनियम की धारा	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रबंध निदेशक, कोयला परामर्शदाता, मुख्य महा प्रबंधक(खनन), अपर महा प्रबंधक (परियोजना), क्षेत्रीय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक (भू-विज्ञानी), विशेष अधिकारी, ज्येष्ठ प्रबंधक (परियोजना), प्रबंधक(खनन), उप प्रबंधक (खनन), प्रबंधक (भू-विज्ञानी), उप प्रबंधक (भू-विज्ञानी), सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षक), खनन इंजीनियर, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षक,	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स संख्या 34, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा.	धारा 4 की उप-धारा (3)	(क) पूर्वेक्षण कोयला के लिए प्रवेश और सर्वेक्षण करना; (ख) उप मृदा में खोदना या वेधन करना; (ग) सभी आवश्यक कार्य करने किए जाने के लिए कोयले का पूर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित किया

	भूमि अधिकारी, वन रेंज अधिकारी, ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल) का राजस्व निरीक्षक।			<p>जाना ;</p> <p>(घ) भूमि की सीमाएं चिन्हांकित करना जिसके लिए पूर्वक्षण के लिए प्रस्तावित किया जाता है ;</p> <p>(ड.) ऐसी सीमाओं को चिन्हांकित करना और चिन्हों के स्थान पर पंक्ति करना;</p> <p>(च) जहां सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और सीमाएं तथा पंक्ति चिन्हांकित किया जा सकता है, कम करना; किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग में स्पष्ट करना।</p>
2.	प्रबंध निदेशक, कोयला परामर्शदाता, मुख्य महा प्रबंधक(खनन), अपर महा प्रबंधक (परियोजना), क्षेत्रीय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक (भू-विज्ञानी), विशेष अधिकारी, ज्येष्ठ प्रबंधक (परियोजना), प्रबंधक (खनन), महा प्रबंधक (वित्त), उप महाप्रबंधक (वित्त), प्रबंधक (वित्त), ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल) का उप प्रबंधक (वित्त)।	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट बाक्स संख्या 34, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा.	धारा 6	क्षति के कारण प्रतिकर के संदाय की संभावना हो और केन्द्रीय सरकार के विवाद के लिए निर्दिष्ट करना।
3.	कोयला नियंत्रक	कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001.	धारा 8 की उप-धारा (2)	अर्जन के विरुद्ध आक्षेपों की सुनवाई और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करना।
4.	प्रबंध निदेशक, कोयला परामर्शदाता, मुख्य महा प्रबंधक(खनन), अपर महा प्रबंधक (परियोजना), क्षेत्रीय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक (भू-विज्ञानी), विशेष अधिकारी, ज्येष्ठ प्रबंधक (परियोजना), प्रबंधक (खनन), महा प्रबंधक (वित्त), उप महाप्रबंधक (वित्त), प्रबंधक (वित्त), ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल) का उप प्रबंधक (वित्त)।	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट बाक्स संख्या 34, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा.	<p>धारा 12</p> <p>धारा 13 की उप-धारा (6)</p> <p>धारा 14 की उप-धारा(1)</p> <p>धारा 14 की उप-धारा (4)</p> <p>धारा 16</p> <p>धारा 17</p>	<p>व्यक्तियों को नोटिस करना, भूमि के कब्जे के लिए अभ्यर्पित करना और उसका कब्जे करना; और</p> <p>नुकसानी के लिए प्रतिकर का संदाय जिसे अधिनियम में सर्वत्र उपलब्ध नहीं है;</p> <p>करार के नियतन के लिए प्रतिकर का संदाय;</p> <p>प्रतिकर के बारे में अधिकरण के समक्ष</p> <p>कथन ;</p> <p>अधिकरण के अधिनिर्णय पर ब्याज का संदाय;</p> <p>प्रतिकर का संदाय।</p>
5.	प्रबंध निदेशक, कोयला परामर्शदाता, मुख्य महा प्रबंधक(खनन), महा प्रबंधक	ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन	धारा 22	प्रवेश और निरीक्षण के लिए शक्ति

(वित्त), अपर महा प्रबंधक (परियोजना), क्षेत्रीय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक (भू-विज्ञानी), विशेष अधिकारी, ज्येष्ठ प्रबंधक (परियोजना), प्रबंधक (खनन), प्रबंधक (वित्त), उप प्रबंधक (वित्त), उप प्रबंधक (भू-विज्ञानी), सहायक प्रबंधक (सर्वेक्षक), खनन इंजीनियर, भू-वैज्ञानिक, सर्वेक्षक, भूमि अधिकारी, वन रेंज अधिकारी, ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल) का राजस्व निरीक्षक।	लिमिटेड, पोस्ट बाक्स संख्या 34, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा.		
--	--	--	--

[फा. सं. 43015/28/2016-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर.पी.गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2016

S.O. 3686(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Schedule below to be competent authorities for the purposes of the said Act and for the provisions of such of the sections as are specified against the said competent authorities in the corresponding entry in column (4) thereof, in respect of the areas specified in column (5) falling within the jurisdiction of the Odisha Mining Corporation Limited, Post Box Number 34, Bhubneswar- 751001, Odisha, as specified in column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

Serial number	Designation of person appointed as competent authority	Official address	Section of the Act.	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Managing Director, Coal Consultant, Chief General Manager (Mining), Additional General Manager (Project), Regional Manager, Deputy General Manager (Geology), Special Officer, Senior Manager (Project), Manager (Mining), Deputy Manager (Mining), Manager (Geology), Deputy Manager (Geology), Assistant Manager (Survey), Mining Engineer, Geologists, Surveyors, Land Officers, Forest Range Officer, Revenue Inspector of Odisha Mining Corporation Ltd. (OMCL).	The Odisha Mining Corporation Limited, Bhubaneswar-751001, Odisha.	Sub-section (3) of section 4.	(a) To enter upon and survey the land for prospecting coal. (b) To dig or bore into the sub soil. (c) To do all acts necessary to prospect for coal in the land. (d) To set out boundaries of the land in which prospecting is proposed to be done.

				<p>(e) To mark such boundaries and line by placing marks.</p> <p>(f) Where survey cannot be completed and the boundaries and the line marked, to cut down and clear away any part of standing crop, fence or jungle.</p>
2.	Managing Director, Coal Consultant, Chief General Manager (Mining), Additional General Manager (Project), Regional Manager, Deputy General Manager (Geology), Special Officer, Senior Manager (Project), Manager (Mining), General Manager (Finance), Deputy General Manager (Finance), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance) of Odisha Mining Corporation Ltd. (OMCL).	The Odisha Mining Corporation Limited, Bhubaneswar-751001, Odisha.	Section 6.	Payment of compensation on amount of damage likely to be caused and referring dispute to Central Government.
3.	Coal Controller	Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001.	Sub-section (2) of section 8.	Hearing of objections against acquisition and submitting of report to Central Government.
4.	Managing Director, Coal Consultant, Chief General Manager (Mining), Additional General Manager (Project), Regional Manager, Deputy General Manager (Geology), Special Officer, Senior Manager (Project), Manager (Mining), General Manager (Finance), Deputy General Manager (Finance), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance) of Odisha Mining Corporation Ltd. (OMCL).	The Odisha Mining Corporation Limited, Bhubaneswar-751001, Odisha	<p>Section 12.</p> <p>Sub-section (6) of section 13.</p> <p>Sub-section (1) of section 14.</p> <p>Sub-section (4) of section 14.</p> <p>Section 16.</p> <p>Section 17.</p>	<p>Notice to persons to surrender possession of land and take possession thereof, and</p> <p>Payment of compensation for damages not provided elsewhere in the Act.</p> <p>Payment of compensation fixed by agreement.</p> <p>Statement before the Tribunal regarding compensation.</p> <p>Payment of interest on award of the Tribunal.</p> <p>Payment of compensation.</p>

5.	Managing Director, Coal Consultant, Chief General Manager (Mining), General Manager (Finance), Additional General Manager (Project), Regional Manager, Deputy General Manager (Geology), Special Officer, Deputy General Manager (Finance), Senior Manager (Project), Manager (Mining), Deputy Manager (Mining), Manager (Geology), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance)Deputy Manager (Geology), Assistant Manager (Survey), Mining Engineer, Geologists, Surveyors, Land Officers, Forest Range Officer, Revenue Inspector of Odisha Mining Corporation Ltd. (OMCL).		Section 22.	Power to enter and inspect.
----	---	--	-------------	-----------------------------

[F. No. 43015/28/2016-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.